

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 — पौष 1, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्रमांक 12330/डी. 187/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-09-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर" के स्थान पर, शब्द "अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्र. 7 सन् 2012) की धारा 3 का संशोधन.

3. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) में, धारा 3 में, शब्द "बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर" के स्थान पर, शब्द "अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर" प्रतिस्थापित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्रमांक 12330/डी. 187/21-अ/प्रारू./छ. ग. /18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 26 of 2018)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In entries of column (2) of serial number 3 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), for the words "Bilaspur Vishwavidyalaya, Bilaspur", the words "Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur" shall be substituted. | Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule. |
| 3. | In Section 3 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (No. 7 of 2012), for the words "Bilaspur Vishwavidyalaya, Bilaspur", the words "Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur" shall be substituted. | Amendment of Section 3 of Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (No. 7 of 2012). |